https://archive.org/details/bk1037/page/n0/mode/1up

2020-01-04 -Akhil Bharatiya Sant Samiti -admitted Gyaneshwardas (1037)

All Items on https://archive.org/details/realpatidar

realpatidar.com

Full Library on https://realpatidar.com/library

धर्म रक्षा गौ-गंगा रक्षा

अखिल भारतीय संत समिति

पंजीकृत कार्यालय : सूरदार संन्यास आश्रम, वृंदावन, मथुरा (उ.प्र.)
सम्पर्क : बी. 37/ 121-ए, अनुराग भवन, खमा विला, महमूरगंज, वाराणसी-221010

आज दिनांक ४ जनवरी २०२० को अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महाअधिवेशन का कैवल ज्ञानपीठ सारसापुरी में आयोजन किया गया, जिसमें जगद्गुरु सतपंथाचार्य प्रेरणापीठ पिराणा के जगद्गुरु श्री नानक दासजी महाराज के ब्रह्मलीन होनेपर जो स्थान रिक्त हो गया है उस स्थान के लिए महंत्त श्री ज्ञानेश्वरदासजी महाराज के नाम का प्रस्ताव जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य विधाभास्कर जी एवम चतुः संप्रदाय के श्री महंत फुलडोल बिहारी दासजी ने किया और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैवलज्ञानपीठाधीश्वर सप्तम कुवेराचार्य श्री अविचलदासजी महाराजने अपनी स्वीकृत्ति प्रदान की और समिति के सभी निर्देशको एवम संरक्षक मंडल ने चादर तिलक विधि की और जगद्गुरु सतपंथाचार्य पद पर अलंकृत किया ।

[illegible]

श्री महन्त स्वामी ज्ञानदेवसिंह

स्वामी परमानन्द

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

स्वामी ज्ञानानन्द तीर्थ ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरापीठ-शंकराचार्य मठ भानपुरा म.प्र. 458775

स्वामी ज्ञानानन्द तीर्थ 9406607636

जा. श्री. चतुः सम्प्रदाय श्रीम. फुलडोल बिहारी दास.

[illegible]

म.मं. स्वामी अनन्तदेव गिरि

स्वामी देवेन्द्रानन्द [illegible]

[illegible]

realpatidar.com

https://archive.org/details/bk1037/page/n1/mode/1up

Real Patidar Library

https://www.realpatidar.com/library

This book/literature/article/material may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden.

The library does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The library shall not be liable for any loss, actions, claims, proceedings, demand, or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material.

Full terms and conditions of use: http://www.realpatidar.com

About Real Patidar books

Real Patidar's mission is to organize the information on Satpanth religion, which is a Nizari Ismaili sect of Shia branch of Islam, and to make it universally accessible and useful. Real Patidar Books helps readers discover the material on Satpanth online while helping authors and researchers in their studies. You can know more by visiting http://www.realpatidar.com

You can resize and move this box in any PDF Application like Adobe Acrobat Reader.

No specific pages. See whole book.
References by: RealPatidar.com

https://archive.org/details/bk1037/page/n2/mode/1up

realpatidar.com

राष्ट्र रक्षा   धर्म रक्षा   गौ-गंगा रक्षा

अखिल भारतीय संत समिति

पंजीकृत कार्यालय : सूरधार संन्यास आश्रम, वृंदावन, मथुरा (उ.प्र.)
सम्पर्क : बी. 37/ 121-ए, अनुराग भवन, खमा विला, महमूरगंज, वाराणसी-221010

आज दिनांक ४ जनवरी २०२० को अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महाअधिवेशन का कैवल ज्ञानपीठ सारसापुरी में आयोजन किया गया, जिसमें जगद्गुरु सतपंथाचार्य प्रेरणापीठ पिराणा के जगद्गुरु श्री नानक दासजी महाराज के ब्रह्मलीन होनेपर जो स्थान रिक्त हो गया है उस स्थान के लिए महंत्त श्री ज्ञानेश्वरदासजी महाराज के नाम का प्रस्ताव जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य विधाभास्कर जी एवम चतुः संप्रदाय के श्री महंत फुलडोल बिहारी दासजी ने किया और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैवलज्ञानपीठाधीश्वर सप्तम कुवेराचार्य श्री अविचलदासजी महाराजने अपनी स्वीकृत्ति प्रदान की और समिति के सभी निर्देशको एवम संरक्षक मंडल ने चादर तिलक विधि की और जगद्गुरु सतपंथाचार्य पद पर अलंकृत किया ।

श्री महन्त स्वामी ज्ञानदेवसिंह

स्वामी परमानन्द

५।५।२०२०

स्वामी ज्ञानानन्द तीर्थ ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरापीठ-शंकराचार्य मठ भानपुरा 458775

9406607636

श्री म. चतुः सम्प्रदाय श्रीम. फुलडोल बिहारी दास.

स्वामी अनन्तदेव गिरि

realpatidar.com